



# NITIN SPINNERS LTD.



REF: NSL/SG/2020-21/  
Date : 25.08.2020

**BSE Limited**

Department of Corporate Services  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai – 400 001

**National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (E),  
Mumbai – 400 051.

Company Code – 532698

Company ID - NITINSPIN

**Sub. : Submission of copy of Newspaper Advertisement in respect of Publication of Notice of 28<sup>th</sup> Annual General Meeting**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with 47 of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper cuttings of the Business Standard (English) & the Pratahkal (Hindi) newspapers both dated. 25<sup>th</sup> August, 2020 for publication of notice in respect of Book Closure and Remote e-voting/e-voting for the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on 16<sup>th</sup> September, 2020 through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM).

Thanking you,

Yours faithfully,  
For-Nitin Spinners Ltd.

(Sudhir Garg)  
Company Secretary & GM (Legal)

Encl a/a


CIN. : L17111RJ1992PLC006987

Regd. Office & Plant : 16-17 Km. Stone, Chittor Road, Hamirgarh, Bhilwara (Raj.) 311 025

Tel. : 286110 to113, Fax : 91-1482-286114 & 117

E-mail : nsl@nitinspinners.com, Website : www.nitinspinners.com

**SUPIMA®**  
WORLD'S FINEST COTTONS



**USTERIZED®**

# Kerala Cabinet passes resolution against leasing airport to Adani

CM says airport's management should be handed over to an SPV in which state govt has a stake

T E NARASIMHAN  
Chennai, 24 August

The Kerala Assembly on Monday passed a "unanimous resolution" demanding the withdrawal of Union Cabinet's decision to lease out the Thiruvananthapuram airport to Adani Enterprises.

Moving the resolution, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan said the Centre should re-examine its decision. He said the operation and management of the airport should be handed over to a special purpose vehicle (SPV) in which the state government has a stake.

Vijayan added that the state government agreed to match Adani's quote, and, hence, the Centre's decision to privatise could not be justified. Leader of the Opposition in the Assembly, Ramesh Chennithala of the Congress, supported the resolution. However, he criticised the government accusing it of having "double standards" on the issue.

He said the government attacked Adani Group in public, but had secretly helped it by consulting a law firm close to the conglomerate and alleged that there was a "criminal conspiracy".



Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri had earlier said Kerala's bid was 20 per cent below Adani's

Chennithala also wanted to know why CIAL had not been appointed as consultant. "There is a conspiracy to help Adani Group," Chennithala alleged. "Keeping in mind the state's interests, the Opposition is supporting the motion and we agree with the spirit of the resolution." Vijayan rubbished the Congress leader's charges, saying the advisory firm had no role to play in

deciding the state's quote. After a brief discussion, Speaker P Sreeramakrishnan declared that the resolution had been "passed unanimously". However, the Bharatiya Janata Party (BJP), which had organised a protest outside the Assembly demanding the chief minister's resignation over the gold smuggling case, alleged the resolution was not "unani-

mous" as its lone representative in the House, O Rajagopal, was "not allowed to speak". "But, we are with the people of the state on the airport matter," BJP state chief K Surendran told the media. Adani Group's didn't reply to a request seeking comment.

Responding to the development, Minister of State (MoS) for External Affairs, V Muraleedharan, said, "Passage of a resolution opposing the development... by Kerala Assembly proves that both (Congress and CPI-M) lost touch with people. It does not reflect the mood of the people, which is for development & growth".

Meanwhile, responding to Congress MP Shashi Tharoor's criticism of the government, Kerala Finance Minister Thomas Isaac tweeted: "Our business model is CIAL (Cochin International Airport). Government major stakeholder with rights to appoint Chair & MD and widely distributed shareholding. This is our version of PPP".

The Union Civil Aviation Minister Hardeep S Puri had hit back at the Kerala government last week. He had said Kerala's bid was 20 per cent below Adani's.

# Indiabulls Housing in talks with Oaktree to raise \$200 mn in debt

Firms signed a similar deal 3 months ago

RAGHAVENDRA KAMATH  
Mumbai, 24 August

Indiabulls Housing Finance is in the final stages of negotiating a deal with Oaktree to raise \$200 million (₹1,500 crore) in debt, said sources in the know, the second such deal between the two in the past three months.

Like in the previous deal, Indiabulls will pledge some developer loans with the global stressed assets investor, which will come in as a senior lender. Oaktree will have the first right on projects' cash flows, sources said.

Indiabulls had raised ₹2,200 crore from Oaktree in June by refinancing part of its real estate deals with the US-based investor through non-convertible debentures. When contacted, Oaktree said: "No comment". An email sent to Indiabulls Housing Finance did not elicit any response.

### Offloading risky loans

Like other non-banking finance companies (NBFCs) and housing finance companies (HFCs), Indiabulls is refinancing its loans to raise liquidity and reduce the share of developer loans, considered riskier in today's market.

"It will help in generating liquidity and rebalance our book which is granular. In one year, we want retail loans to be 90 per cent of our loan book," Gagan Banga, vice-chairman and managing director, Indiabulls Housing Finance told *Business Standard* recently.

"We are also working on two-three other deals," Banga had



### BIZ STRATEGY

**WHAT'S UP**  
₹69,676 cr: the size of Indiabulls' loan book as of March 2020

₹25,000 cr: the firm's developer loans in FY20

₹2,200 cr: the amount raised by Indiabulls from Oaktree early this year

### ROAD MAP

■ Indiabulls is looking to reduce wholesale loans; increase retail loans

■ It is also working on similar debt deals with other investors

### Industry scene

Several NBFCs and HFCs are in talks with special situation funds such as SSG Capital, Oaktree and others to sell or refinance their developer loans.

Piramal Capital & Housing Finance is in the final stages of talks with Apollo Global Management to raise between \$300 million and \$500 million in a deal similar to the Indiabulls-Oaktree arrangement.

ECL Finance, the NBFC arm of Edelweiss Group, also sold real estate loans worth ₹4,000 crore to Farallon Capital and SSG Capital, according to recent reports.

Edelweiss Group has recently finalised a sell-down transaction of ₹4,000 crore with two global investors in continuation of the strategy to move wholesale book into fund format, its spokesperson told *Business Standard* recently.

"We intend to sell-down another ₹ 3,000 crore of wholesale portfolio in FY21 and plan to bring it down to zero in next two years," the spokesperson had said.

In another development, assets of Embassy Group were merged with Indiabulls Real Estate to create a new company. This is a part of the promoters' plans to exit the real estate business.

# More employees being rated poorly as firms cut costs

SACHIN P MAMPATTA  
Mumbai, 24 August

The proportion of employees whose performance is rated below average has gone up amid falling revenues and deferred increment decisions.

The proportion of employees whose performance is seen to be above average is also seen falling in the current financial year ending March 2021 (FY21).

The data is based on Deloitte Touche Tohmatsu India's 2020 Workforce and Increment Trends Survey Results (Phase II). More people are also being rated average shows the data.



**PERFORMANCE REVIEW**  
Change over previous year (%)

Over a quarter of firms still undecided

33% Positive increments, 27% Undecided, 40% No increments

"While more organisations are now comfortable putting more employees below the 'meets expectations' category, increment differentiation between the top and average performers continues to be the same as in 2019. The consumer products industry has been more aggressive in sharpening the bell curve, while the life sciences sector has made minimum changes," said the report.

It added that there are fewer companies have decided to give out increments at all. Only four out of ten have taken the decision to pay employees higher than before. Over a quarter of companies are still undecided on increments, according to the report.

Fewer than 10 per cent of the companies have given double-digit increments, according to the report. Those that had their increment cycle close before the lockdown gave higher increments.

# TENDER CARE — Advertorial

### IRCTC PARTNERS WITH ROBIN HOOD ARMY FOR FREE DISTRIBUTION OF MEALS

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited (IRCTC) a unit of Indian Railways and one of the largest catering establishments of the country has partnered with Robin Hood Army (RHA), an NGO for distribution of Ready To Eat "Aloo Kanda Poha" in Mumbai to the poor and needy through Uber Logistic Network amidst the Covid-19 Pandemic. The noble initiative started by IRCTC in association with the NGO who will ensure the distribution of Ready To Eat (RTE) Aloo Kanda Poha to the destitute, needy and poor people. The noble initiative was started on 17th August, 2020 from the Mumbai Central Base Kitchen and was the event was attended by Satya Kumar, DRM MMCT, Rahul Himalian, GGM/WZ IRCTC, Sumit Thakur, CPRO WR, and Faiza Dhanani and Deepak Singh, Coordinators from Robin Hood Army and other Senior Railway and IRCTC Officials. IRCTC has been among the front runners in distribution of free meals during the countrywide lockdown imposed due to COVID-19 and has served the affected fellow citizens by distribution of more than 21 lakh plus community meals and more than 1.8 crores meals to the migrant labors travelling in Shramik Special Trains.



### SH.ASHWANI SINGLA PROMOTED AS CAO REVENUE PSPCL

Sh. Ashwani Singla Jt. Financial Advisor 1 has assumed charge as Chief Accounts officer Revenue, Punjab State Power Corporation limited here today. Sh. Ashwani Singla joined PSPCL erstwhile PSEB as Revenue Accountant in January 2000 and rose to the level of Chief Accounts Officer Revenue. He served various important assignments earlier before joining as CAO.



### HPCL CELEBRATES 74TH INDEPENDENCE DAY

Nation's 74th Independence Day was celebrated by HPCL with hoisting of the National Flag. Flag hoisting was carried out at Corporate Headquarters, Marketing Headquarters, Mumbai & Visakh Refineries and various locations spread across the length and breadth of the Country. The occasion was celebrated taking precautions and following all safety protocols related to Covid-19, during the current challenging times. Retail outlets and LPG distributorships across the country celebrated the occasion with our customers by distributing flags, sweets, mementos etc.



### GSFC CELEBRATED 74TH INDEPENDENCE DAY WITH GREAT PRIDE AND JOY

Gujarat State Fertilisers and Chemicals Limited (GSFC) celebrated 74th Independence Day with great enthusiasm and joy. During the celebrations, in the presence of Chairman and Managing Director Shri Arvind Agarwal and other senior members, flag hoisting ceremony was performed. The sacrifices made by the freedom fighters for the independence of the nation was also fondly remembered on this occasion. Looking at the ongoing COVID-19 pandemic, only limited employees participated in this ceremony. They maintained social distancing and followed other pandemic guidelines issued by the Government.



**Nahar CAPITAL AND FINANCIAL SERVICES LIMITED**  
CIN: L45202PB2006PLC029968  
Regd. Office: 375, Industrial-A, Ludhiana-141003  
Phone No.: 0161-2600701-705,  
E-mail: secncts@ownnahar.com, Website: www.ownmahar.com

**IMPORTANT NOTICE FOR PROVIDING EMAIL ID AND BANK PARTICULARS**  
Notice is hereby given to the Shareholders that pursuant to the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year ended March 31, 2020 shall be sent electronically only to those shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository.

Accordingly, shareholders are requested to register their email id either with their Depository Participant (in case of Demat holding) or with the Company at e-mail: gredressalncfs@ownmahar.com (in case of Physical holding). This will enable the Company to send the Annual Report for the financial year 2019-20 electronically. Further, Shareholders holding shares in physical form are requested to dematerialize their holdings. The Shareholder who have not updated their bank account details are requested to update the same with the Depository Participant (DP) / Company or RTA as the case may be so that dividends can be remitted through Electronic Clearing System (ECS).

For Nahar Capital and Financial Services Limited  
Sd/-  
Anjali Modgil  
Company Secretary

Place: Ludhiana  
Dated : 24.08.2020

**NITIN SPINNERS LIMITED**  
CIN: L17111RJ1992PLC006987  
Regd. Office - 16/17 Km. Stone Chittar Road, Hamirgarh, Bhiwara - 311025 (Raj.)  
Phone No. 01482-286110, Fax No. 01482-286117  
E-mail: investorrelations@nitinspinners.com • Website: www.nitinspinners.com

**NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING**  
The notice is hereby given that:  
i. the 28th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on **Wednesday, the 16th September, 2020 at 03.00 P.M.** IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 08th August, 2020; in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules framed there under; provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and General Circular No. 20/2020 dtd.5th May, 2020 read with Circular No.14/2020 dtd.8th April, 2020 and Circular No.17/2020 dtd.13th April 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/P/2020/79 dtd.12th May, 2020 issued by SEBI ("Circulars")  
ii. The procedure for attending the AGM through VC/OAVM is explained in the Notice for AGM and weblink to attend AGM is <https://www.evotingindia.com>. The Shareholders attending AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. In compliance with the aforesaid Circulars sending of the Notice for convening AGM and Annual Reports for the Financial Year 2019-20, to shareholders of the Company and other persons so entitled, whose E-Mail addresses are registered with the Company's RTA/Depository Participants on 21.08.2020 have been completed, on 24th August, 2020. The Notice and Annual Report-2019-20 are also available on the Company's website viz. [www.nitinspinners.com](http://www.nitinspinners.com), the websites of the BSE Limited viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd viz. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)  
iii. pursuant to the provisions of Section 91 of the Act, Rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 10th September, 2020 to Wednesday, 16th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the 28th AGM and payment of Dividend;  
iv. pursuant to the provisions of Section 108 of the Act, Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing "remote e-voting" and "e-voting" facility to the Members to cast their vote by the electronics means on all Resolutions set out in the notice of AGM and it has engaged the services of CDSL for this purpose.  
The detailed procedure/ instructions for "remote e-voting" and "e-voting" are contained in the Notice of the AGM. In this regard, the Members are further notified that:  
(a) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 09, 2020 only shall be entitled to avail the facility of "remote e-voting" and "e-voting" at the AGM;  
(b) the "remote e-voting" shall commence from 09.00 A.M. on Saturday, September 12, 2020 and ends on 05.00 P.M. on Tuesday, September 15, 2020;  
(c) the "remote e-voting" shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of Tuesday, September 15, 2020;  
(d) the facility for "e-voting" shall be made available at the AGM to those shareholders who have not cast their vote by "remote e-voting" and are attending AGM through VC/OAVM;  
(e) the members who have cast their vote by "remote e-voting" prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled for "e-voting" at the AGM;  
(f) any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 09, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com). However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.  
(g) any query/grievance pertaining to E-voting can be addressed to: Mr. Rakesh Dalvi, Manager (022-2305842), CDSL, A Wing, 6th Floor, Market Street, Lower Ground, Mumbai - 400013; e-mail: [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com); Help Desk Number - 1800225533.

For Nitin Spinners Ltd.  
Sudhir Garg  
Company Secretary & GM (Legal)  
M.No. ACS 9684

Place : Bhiwara  
Date : 24.08.2020

**LONGVIEW TEA CO. LTD.**  
CIN: L15491WB1879PLC00377  
Registered office: 16, Hare Street, Kolkata-700 001  
www.longviewtea.org Email: info@longviewtea.org Phone No.033-2248-2391/2/3 Fax No. 033-2248-9382

**NOTICE**  
NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Longview Tea Company Limited will be held on Monday, the 21st day of September 2020 at 12.00 noon (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), Listing Regulations and Circulars dated 5th May 2020 read with General Circulars dated 8th April 2020 and 13th April 2020 (collectively referred to as MCA Circulars) issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and SEBI circular dated 12th May, 2020.

In view of the global outbreak of the Covid-19 pandemic and compliance with aforesaid circulars, Notice of AGM along with the Annual Report is being sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company's Depository Participants.

Members may note that the Notice of AGM and Annual Report will also be available on the Company's website at [www.longviewtea.org](http://www.longviewtea.org), website of stock exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Eligible members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same with their Depository Participant ("DP"), if the shares are held in demat form and members holding shares in physical form are requested to provide the same to Registrar and Transfer Agent by visiting this link: <http://mdpi.in/form-email-update>.

Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting as per the procedure given in the AGM notice which will be made available on the Company's website viz. [www.longviewtea.org](http://www.longviewtea.org).

For Longview Tea Co. Ltd.  
Sd/-  
Nikita Puri  
Company Secretary  
ACS: 35481

Date: 22nd August, 2020  
Place: Kolkata

**KVB Karur Vysya Bank**  
Smart way to bank

**THE KARUR VYSYA BANK LIMITED**  
Registered & Central Office, No. 20, Erode Road, Vadivel Nagar, L.N.S., Karur - 639002  
[CIN No: L65110TN1916PLC001295]  
[e-mail: kvbshares@kvbmail.com] [Website: www.kvb.co.in]  
[Tel No: 04324-269441] [Fax No: 04324-225700]

**101st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")**

Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, has issued Clarification on holding of Annual General Meeting ("AGM") through video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020. Further Securities and Exchange Board of India (SEBI) also vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/ICIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 has issued Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. In view of the continuing COVID-19 global pandemic holding of the AGM through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM") is permitted.

Therefore, members of the Bank may please note that 101st Annual General Meeting of the Bank is scheduled to be held on Wednesday, September 23, 2020 at 11:00 a.m. IST, through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance extant guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI.

Accordingly, the Notice of the 101st AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent through email to all the members of the Bank whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s). Further, the Notice and the Annual Report will also be made available on the bank website <https://www.kvb.co.in/investor-corner/annual-general-meeting/> and website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. <https://www.evoting.nsdl.com> in due course

Any person who acquires shares of the Bank and becomes a Member of the Bank after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares on cut-off date i.e., on Wednesday, September 16, 2020, may obtain the login ID and Password of e-Voting by sending a request at [kvb\\_stg@kvbmail.com](mailto:kvb_stg@kvbmail.com) or [info@skdc-consultants.com](mailto:info@skdc-consultants.com) or [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). A person who is not a member as on the cut-off date should contact the notice for information purpose only.

We request the members of the Bank, who have not registered their e-Mail ids to update the same in the following manner:

a) For the shares held in physical form	The details shall be registered with Bank's RTA-i.e. M/s SKDC Consultants Ltd.
b) For the shares held in electronic form (i.e., Demat)	The details shall be updated with the concerned Depository Participant (DP) where the Demat account is maintained.

For registration of e-Mail ids in case of physical folios, members are requested to send the scanned copy of request letter duly signed by furnishing the details of name, folio no, email id, mobile number and PAN (self-attested copy to be enclosed) to the Bank's RTA, M/s. S.K.D.C. Consultants Limited through e-Mail id to [green@skdc-consultants.com](mailto:green@skdc-consultants.com). Further the updated details from the shareholders before the cut-off date i.e. 16<sup>th</sup> September 2020 will only be considered for sending the Annual Report along with the Notice through mail.

Members of the bank will be given an opportunity to cast their vote on the business as set forth in the Notice of 101<sup>st</sup> AGM either through (i) remote e-Voting before the date of AGM or (ii) e-Voting during the AGM. Further the details such as manner of registering/updating email addresses, casting vote through e-Voting and attending the AGM through VC/OAVM has been set out in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the bank. Members of the bank are requested to visit <https://www.kvb.co.in/investor-corner/annual-general-meeting/> portal to obtain such details.

RBI vide circular DOR.BPBC.No.64/21.02.067/2019-20 dated April 17, 2020 has directed the banks not to make any further dividend payout from the profits pertaining to the financial year ended March 31, 2020 until further instructions which may be please be noted.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Bank and is in compliance with the MCA and SEBI Circulars.

For The Karur Vysya Bank Limited  
Srinivasarao M  
Company Secretary  
(Membership No. ACS 19189)

Place : Karur  
Date : August 24, 2020

